

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. 9-बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रबी 2015-16 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना क्रमांक 125, दिनांक 21 मार्च, 2016 जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला रतलाम की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम रबी वर्ष 2015-16 जिला रतलाम की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2015-16 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की पूरक संशोधित सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई- सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
रतलाम	रतलाम	विलपौक	76	जमूनीया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	ताल	ताल	04	बरखेड़ा खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-